



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 14 जून, 2019

ज्येष्ठ 24, 1941 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

बेसिक शिक्षा अनुभाग-5

संख्या 407/68-5-2019-रिट-105-2014

लखनऊ, 14 जून, 2019

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0-46

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन् 1972) की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

**उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा (पच्चीसवां संशोधन) नियमावली, 2019**

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा संक्षिप्त नाम और (पच्चीसवां संशोधन) नियमावली, 2019 कही जायेगी। प्रारम्भ

(2) यह 28 जून, 2018 से प्रवृत्त हुयी समझी जायेगी।

2- उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 जिसे आगे उक्त परिशिष्ट-1 का नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए परिशिष्ट-1 के स्थान पर स्तम्भ-2 में संशोधन दिया गया परिशिष्ट रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1			स्तम्भ-2		
विद्यमान परिशिष्ट			एतद्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट		
(परिशिष्ट-1)			(परिशिष्ट-1)		
अभ्यर्थियों के चयन के लिए गुणवत्ता अंक एवं भारांक			अभ्यर्थियों के चयन के लिए गुणवत्ता अंक एवं भारांक		
	परीक्षा/उपाधि का नाम	गुणवत्ता अंक		परीक्षा/उपाधि का नाम	गुणवत्ता अंक
1	हाईस्कूल	परीक्षा में प्राप्तांकों का प्रतिशत x 10 100	1	हाईस्कूल	परीक्षा में प्राप्तांकों का प्रतिशत x 10 100
2	इण्टरमीडिएट	परीक्षा में प्राप्तांकों का प्रतिशत x 10 100	2	इण्टरमीडिएट	परीक्षा में प्राप्तांकों का प्रतिशत x 10 100
3	स्नातक उपाधि	परीक्षा में प्राप्तांकों का प्रतिशत x 10 100	3	स्नातक उपाधि	परीक्षा में प्राप्तांकों का प्रतिशत x 10 100
4	बी0टी0सी0 प्रशिक्षण	परीक्षा में प्राप्तांकों का प्रतिशत x 10 100	4	नियम-8 की प्रशिक्षण अर्हतायें	परीक्षा में प्राप्तांकों का प्रतिशत x 10 100
5	सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा	परीक्षा में प्राप्तांकों का प्रतिशत x 10 100	5	सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा	परीक्षा में प्राप्तांकों का प्रतिशत x 60 100
6	<b>भारांक</b> बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित जूनियर बेसिक स्कूलों में इस रूप में कार्यरत शिक्षामित्र के रूप में या अध्यापक के रूप में अध्यापक अनुभव	प्रत्येक पूर्ण अध्यापन वर्ष के लिए 2.5 अंक, अधिकतम 25 अंक तक, जो भी कम हो।	6	<b>भारांक</b> बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित जूनियर बेसिक स्कूलों में इस रूप में कार्यरत शिक्षामित्र के रूप में या अध्यापक के रूप में अध्यापन अनुभव	प्रत्येक पूर्ण अध्यापन वर्ष के लिए 2.5 अंक, अधिकतम 25 अंक तक, जो भी कम हो।
<p><b>नोट :-</b> 1-यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के गुणवत्ता अंक समान हों तो ऐसे अभ्यर्थी का नाम, जो आयु में ज्येष्ठ हो, सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा।</p> <p>2-यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के गुणवत्ता अंक और आयु समान हो तो अभ्यर्थी का नाम, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार सूची में रखा जायेगा।</p>			<p><b>टिप्पणी :-</b> यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के गुणवत्ता अंक समान हों तो ऐसे अभ्यर्थी का नाम, जो आयु में ज्येष्ठ हो, सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के गुणवत्ता अंक और आयु समान हो तो अभ्यर्थी का नाम, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में सूची में रखा जायेगा।</p>		

3-उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए परिशिष्ट-2 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया परिशिष्ट रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

परिशिष्ट-2 का  
निकाला जाना

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2										
विद्यमान परिशिष्ट	एतद्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट										
(परिशिष्ट-2) अभ्यर्थियों के चयन के लिए गुणवत्ता अंक एवं भारांक											
<table border="1"> <tr> <th>परीक्षा/उपाधि का नाम</th><th>गुणवत्ता अंक</th></tr> <tr> <td>हाईस्कूल</td><td>प्राप्तांकों का प्रतिशत 10</td></tr> <tr> <td>इण्टरमीडिएट</td><td>परीक्षा में प्राप्तांकों का प्रतिशत x 2 10</td></tr> <tr> <td>स्नातक उपाधि</td><td>परीक्षा में प्राप्तांकों का प्रतिशत x 4 10</td></tr> <tr> <td>शिक्षा स्नातक : बी0एड0/बी0एड0 (विशेष शिक्षा)/ डी0एड0 (विशेष शिक्षा)</td><td>परीक्षा में प्राप्तांकों का प्रतिशत x 3 10</td></tr> </table>	परीक्षा/उपाधि का नाम	गुणवत्ता अंक	हाईस्कूल	प्राप्तांकों का प्रतिशत 10	इण्टरमीडिएट	परीक्षा में प्राप्तांकों का प्रतिशत x 2 10	स्नातक उपाधि	परीक्षा में प्राप्तांकों का प्रतिशत x 4 10	शिक्षा स्नातक : बी0एड0/बी0एड0 (विशेष शिक्षा)/ डी0एड0 (विशेष शिक्षा)	परीक्षा में प्राप्तांकों का प्रतिशत x 3 10	निकाल दिया गया
परीक्षा/उपाधि का नाम	गुणवत्ता अंक										
हाईस्कूल	प्राप्तांकों का प्रतिशत 10										
इण्टरमीडिएट	परीक्षा में प्राप्तांकों का प्रतिशत x 2 10										
स्नातक उपाधि	परीक्षा में प्राप्तांकों का प्रतिशत x 4 10										
शिक्षा स्नातक : बी0एड0/बी0एड0 (विशेष शिक्षा)/ डी0एड0 (विशेष शिक्षा)	परीक्षा में प्राप्तांकों का प्रतिशत x 3 10										
<p><b>टिप्पणी :-</b> यदि दो या उससे अधिक अभ्यर्थियों के गुणवत्ता अंक समान हों, तो अधिक आयु के अभ्यर्थी का नाम, सूची में ऊपर रखा जायेगा। यदि दो या उससे अधिक अभ्यर्थियों के गुणवत्ता अंक और उनकी आयु समान हो तो सूची में अभ्यर्थी का नाम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में सूची में रखा जायेगा।</p>											

आज्ञा से,  
रेणुका कुमार,  
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 407/LXVIII-5-2019-Writ-105-2014, dated June 14, 2019 :

No. 407/LXVIII-5-2019-Writ-105-2014

*Dated Lucknow, June 14, 2019*

IN exercise of the powers under sub-section (1) of section 19 of the Uttar Pradesh Basic Education Act, 1972 (U. P. Act no. 34 of 1972) the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Basic Education (Teachers) Service Rules, 1981.

**THE UTTAR PRADESH BASIC EDUCATION (TEACHERS) SERVICE (TWENTY FIFTH AMENDMENT) RULES, 2019**

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Basic Education (Teachers) Service (Twenty Fifth Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall be deemed to have come into force from June 28, 2018.

Amendment of appendix-1

2. In the Uttar Pradesh Basic Education (Teachers) Service Rules, 1981, hereinafter referred to as the said rules, for appendix-1 set out in column-1 below, the appendix as set out in column-2 shall be *substituted*, namely:-

<b>COLUMN-1</b> <i>Existing appendix</i>			<b>COLUMN-2</b> <i>Appendix as hereby substituted</i>		
<b>(APPENDIX-1)</b> Quality points and weight-age for selection of candidates			<b>(APPENDIX-1)</b> Quality points and weight-age for selection of candidates		
	Name of Examination/ degree	Quality Points		Name of Examination/ degree	Quality Points
1	High School	<u>Percentage of marks in the examination x 10</u> 100	1	High School	<u>Percentage of marks in the examination x 10</u> 100
2	Intermediate	<u>Percentage of marks in the examination x 10</u> 100	2	Intermediate	<u>Percentage of marks in the examination x 10</u> 100
3	Graduation degree	<u>Percentage of marks in the examination x 10</u> 100	3	Graduation degree	<u>Percentage of marks in the examination x 10</u> 100
4	B.T.C. Training	<u>Percentage of marks in the examination x 10</u> 100	4	Training Qualifications of Rule-8	<u>Percentage of marks in the examination x 10</u> 100
5	Assistant Teacher recruitment Examination	<u>Percentage of marks in the examination x 60</u> 100	5	Assistant Teacher recruitment Examination	<u>Percentage of marks in the examination x 60</u> 100
6	<b><u>Weight-age</u></b> Teaching experiences as shikshamitra or as teacher working as such in junior basic schools run by Basic Shiksha Parishad	2.5 marks per completed teaching year, up to maximum 25 marks, whichever is less	6	<b><u>Weight-age</u></b> Teaching experiences as shikshamitra or as teacher working as such in junior basic schools run by Basic Shiksha Parishad	2.5 marks per completed teaching year, up to maximum 25 marks, whichever is less
<b>Note :-</b> 1. If two or more candidates have equal quality points, the name of the candidate who is senior in age shall be placed higher in the list.			<b>Note :-</b> 1. If two or more candidates have equal quality points, the name of the candidate who is senior in age shall be placed higher in the list.		

<u>COLUMN-1</u> <i>Existing appendix</i>	<u>COLUMN-2</u> <i>Appendix as hereby substituted</i>
<b>(APPENDIX-1)</b> Quality points and weight-age for selection of candidates	<b>(APPENDIX-1)</b> Quality points and weight-age for selection of candidates
<b>Note :-</b> 2. If two or more candidates have equal quality points and age, the name of the candidate shall be placed in the list in English alphabetical order.	<b>Note :-</b> 2. If two or more candidates have equal quality points and age, the name of the candidate shall be placed in the list in English alphabetical order.

3. In the said rules for appendix-II set out in Column-1, below the appendix as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely :-

Ommission of appendix-II

<u>COLUMN-1</u> <i>Existing appendix</i>	<u>COLUMN-2</u> <i>Appendix as hereby substituted</i>															
<b>(APPENDIX-II)</b> Quality points and weight-age for selection of candidates																
<table><tr><td></td><td>Name of Examination/ degree</td><td>Quality Points</td></tr><tr><td>1</td><td>High School</td><td><u>Percentage of marks</u> 10</td></tr><tr><td>2</td><td>Intermediate</td><td><u>Percentage of marks in the examination x 2</u> 10</td></tr><tr><td>3</td><td>Graduation degree</td><td><u>Percentage of marks in the examination x 4</u> 10</td></tr><tr><td>4</td><td>Bachelor of Education (B.Ed.)/ B.Ed. (Special Education)/ D.Ed. (Special Education)</td><td><u>Percentage of marks in the examination x 3</u> 10</td></tr></table>		Name of Examination/ degree	Quality Points	1	High School	<u>Percentage of marks</u> 10	2	Intermediate	<u>Percentage of marks in the examination x 2</u> 10	3	Graduation degree	<u>Percentage of marks in the examination x 4</u> 10	4	Bachelor of Education (B.Ed.)/ B.Ed. (Special Education)/ D.Ed. (Special Education)	<u>Percentage of marks in the examination x 3</u> 10	<i>Omitted</i>
	Name of Examination/ degree	Quality Points														
1	High School	<u>Percentage of marks</u> 10														
2	Intermediate	<u>Percentage of marks in the examination x 2</u> 10														
3	Graduation degree	<u>Percentage of marks in the examination x 4</u> 10														
4	Bachelor of Education (B.Ed.)/ B.Ed. (Special Education)/ D.Ed. (Special Education)	<u>Percentage of marks in the examination x 3</u> 10														
<b>Note :-</b> In two or more candidates have equal quality points, the name of the candidate who is senior in age shall be placed higher in the list. If two or more candidates have equal quality points and age, the name of the candidate shall be placed in the list in English alphabetical order.																

By order,  
RENUKA KUMAR,  
*Apar Mukhya Sachiv.*

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 171 राजपत्र-(हिन्दी)-2019-(505)-599 प्रतियां-(क०/टी०/ऑफसेट)।  
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 1 सा० शिक्षा-2019-(506)-500 प्रतियां-(क०/टी०/ऑफसेट)